

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2020—फाल्गुन 7, शक 1941

#### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2020

क्रमांक एफ. 01-01/2020/सात-7 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा आगर जिले की तहसील आगर से नवीन तहसील कानड़ सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील आगर जिला आगर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (4) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएँ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे -

क्र०	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं	अभियुक्तियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आगर मुख्यालय- आगर	वर्तमान तहसील आगर के रा.नि.मं. कानड के प.ह.नं. 28 लगायत 44 तथा रा.नि.मं. आगर के प.ह.नं. 8, 9, 11, 24 लगायत 27 एवं 45 इस प्रकार कुल 25 प.ह. अपवर्जित होंगे	आगर मुख्यालय-आगर	वर्तमान तहसील आगर के रा. नि. मं. आगर के प.ह.नं. 01 लगायत 07, 10, 12 एवं 13 रा.नि.मं. पाचरुण्डी के प.ह.नं. 14 लगायत 23 एवं रा.नि.मं. तनोडिया के प.ह.नं. 46 लगायत 62 इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे	उत्तर में- तहसील सुसनेर जिला आगर-मालवा पूर्व में- प्रस्तावित तहसील कानड जिला आगर-मालवा दक्षिण में- तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में- तहसील बडौद जिला आगर-मालवा	
2.			कानड मुख्यालय- कानड	वर्तमान तहसील आगर के रा.नि.मं. कानड के प.ह.नं. 28 लगायत 44 तथा रा.नि.मं. आगर के प.ह.नं. 8, 9, 11, 24 लगायत 27 एवं 45 इस प्रकार कुल 25 प.ह. समाविष्ट होंगे	उत्तर में- तहसील नलखेडा जिला आगर-मालवा पूर्व में- तहसील मोहन बडोदिया जिला शाजापुर दक्षिण में- तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में- तहसील आगर जिला आगर-मालवा	

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.